



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932

No. 66]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2011

सं. 7/2011-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 77(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो सीमा-शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप, 2011 (जिसे इसके पश्चात् इसे वर्ल्ड कप भी कहा गया है) आयोजित करने के उद्देश्य से भारत में आयात किए जाने पर कथित सारणी के कालम (3) में उल्लेख शर्तों के अधीन, कथित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क दर से छूट प्रदान करती है :—

सारणी

क्रम सं.	माल का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	खेल के उपस्कर;	(क) बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् बीसीसीआई भी कहा गया है) या वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई द्वारा लिखित में कोई अधिकृत आयातक द्वारा आयातित
2.	मेडिकल उपस्कर;	
3.	फोटोग्राफिक और ऑडियो-विस्तृत उपस्कर और स्प्लार्ड;	(i) आयातक का नाम पता और विवरण, मात्रा और उक्त माल की मात्रा और कीमत और (ii) उक्त माल उपरोक्त इसी शर्त में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
4.	प्रसारण उपकरण और स्प्लार्ड;	(ख) वह आयातक, माल की निकासी के समय उक्त आयातित माल की कीमत के 25 प्रतिशत की बैंक गारंटी देगा, सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उपायुक्त को संतुष्टि हेतु यह शपथ-पत्र देगा कि आयातित मालों का पुनः निर्यात वर्ल्ड कप की समाप्ति के तीन महीनों के अन्दर कर दिया जाएगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में आयातित माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करेगी जिस पर अधिसूचना के अंतर्गत छूट ली गई थी; और
5.	कम्प्यूटर और अन्य कार्यालय उपस्कर,	(ग) यह माल आयात और पुनः निर्यात मुम्बई और चेन्नई, इम्लैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद या मुम्बई एयरपोर्ट, चेन्नई और दिल्ली से किया जायेगा।

[फा. सं. 354/23/2011-टीआरयू]

नवीन कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2011

No. 7/2011-Customs

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (2) of the Table below and falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the purpose of organizing the International Cricket Council World Cup, 2011 (hereinafter referred as World Cup), from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions specified in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	Sport equipments;	(a) Imported by the Board of Control for Cricket in India (hereinafter referred as BCCI) or by any importer authorized in writing by BCCI in relation to World Cup, 2011 indicating,—
2.	Medical instruments;	(i) the name and address of the importer and the description, quantity and value of the said goods and
3.	Photographic and audio-visual equipment and supplies;	(ii) that the said goods are required for the purpose specified in this condition;
4.	Broadcast equipment and supplies;	(b) Such importer, at the time of clearance of the goods shall furnish a bond for the value of the imported goods supported by a bank guarantee to the extent of twenty-five per cent of the said value, to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, undertaking that all such goods shall be re-exported within three months from the date of official closure of the World Cup and shall pay an amount equal to the duty leviable on the imported goods but for the exemption under this notification in the event of failure to do so; and
5.	Computer and other office equipment;	(c) Such goods shall be imported and re-exported from the sea ports at Mumbai or Chennai, Inland Container Depot at Tuglakabad or airports at Mumbai, Chennai or Delhi.

[F.No. 354/23/2011-TRU]

NAVIN KUMAR VIDYARTHI, Under Secy.